

Date: 13th February, 2024

The Manager
Department of Corporate Services
BSE Limited
Phiroze Jeejeebhoy Towers,
Dalal Street, Mumbai – 400001

The Secretary
The Calcutta Stock Exchange Limited
7, Lyon Range
Kolkata - 700001

Dear Sir/Madam,

Sub: <u>Copies of un-audited financial results for the quarter ended 31.12.2023</u> <u>Published in the newspapers</u>

Please find the enclosed copies of un-audited financial results for the quarter ended 31.12.2023 published in the newspaper "Financial Express" - English Edition and "Jan Satta" - Hindi Edition on 13.02.2024.

Please take note of the same.

Thanking you,

For Aravali Securities and Finance Limited

company Secretary

Encl:A/a

ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED

REGD. OFFICE: RIDER HOUSE, Ground Floor, Plot No. 136, Sector-44, Gurgaon-122003 Phone: +91-124-4284578/4284580/4284582

CIN: L67120HR1980PLC039125 | Website: www.aravalisecurities.com | Email: info@aravalisecurities.com

FINANCIAL EXPRESS



HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED

Corporate Office: No. 167-169, 2nd Floor, Anna Salai, Saidapet, Chennai-600015. 203, 2nd Floor, Padam Business Park, Awas Vikas, Agra-282007

RRM - Pankaj Singh Choudhary - 7081828333, RLM- Arun Kumar Singh - 9506011777, CRM- RISHIPAL-8445401648. CLM- Anand Kumar Mishra-8318834940

NOTICE UNDER SECTION 13(2) OF THE SECURITIZATION AND RECONSTRUCTION OF FINANCIAL ASSETS AND ENFORCEMENT OF SECURITY INTEREST ACT, 2002 (SARFAESI ACT)

In respect of loans availed by below mentioned borrowers / guarantors through HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED, which have become NPA with below mentioned balance outstanding on dates mentioned below. We have already issued detailed Demand Notice dated as mentioned below Under Sec. 13(2) of Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act 2002 by Registered Post / Speed Post / Courier with acknowledge due to you which has been returned undelivered acknowledgment not received. We have indicated our intention of taking possession of securities owned on one of you as per Sec. 13(4) of the Act in case of your facilure to pay the amount mentioned below within 60 days. In the event of your not discharging liability as set out herein above the Bank / Secured Creditor may exercise any of the right conferred vide section 13(4) of SARFAESI Act and while publishing the possession notice / auction notice, electronically or otherwise, as required under the SARFAESI Act, the Bank / Secured Creditor may also publish your photograph. Details are hereunder:-

S. No.	Name of Borrowers/ Co-Borrowers/ Guarantors & Date of NPA	Demand Notice Date Amount Outstanding	Details of Secured Assets			
1	Mrs. Sweta Gaur & Mr. Laxmi Narayan, both at: C- 124 ram Nagar Krishna Nagar, Bajna Mathura, Urban, Mathura, Uttar Pradesh, India - 281004	Demand Notice Dated 10-01-2024	Plot No.65 and 70, Measuring 236.52 Sq. M Situated at Mauja Bajna, Tehsil & Distr			
	A/c No. UP/MTR/MATH/A000000046 Loan Accounts have been classified as a NPA on 30-11-2023	Amount Outstanding ₹ 15,05,967/- as on 20-12-2023 + interest + Legal Charges	Mathura, At Khasra No.502 and 509, Bounded as: North: East part of Plot No.65 and 70, Renu Gaur, South: Road 15 Ft Wide, West: Land Chunni lal, East: Land Narayan Singh			

plete details and (2) To pay the balance outstanding amount interest and costs etc. within 60 days from the date of notice referred to above to avoid further action under the SARFAESI Act.

Authorised Officer, HINDUJA HOUSING FINANCE LIMITED Dated: 12-02-2024, Place: Agra

SYMBOLIC POSSESSION NOTICE Branch Office- ICICI Bank Ltd, 3rd Floor, Plot No- 23, New Rohtak Road,

Acici Bank | Branch Office | 10005

the date of receipt of the said notice.

The undersigned being the Authorized Officer of ICICI Bank Limited under the Securitisation, Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002 and in exercise of the powers conferred under section 13 (12) read with Rule 3 of the Security Interest (Enforcement) rules 2002, issued demand notices upon the borrowers mentioned below, to repay the amount mentioned in the notice within 60 days from

As the borrower failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower and the public in general that the undersigned has taken Symbolic possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/ her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said rules on the below-mentioned dates. The borrower in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of ICICI Bank Limited.

Sr. No.	Borrower/ Loan of Property/ Date Account Number Symbolic Possess		Date of Demand Notice/ Amount in Demand Notice (Rs.)	Name of Branch
	Gurvinder Singh Lamba/ Ravinder Singh Lamba/ Gulshan Veer Lamba/ Swarn Kaur Lamba/ Anupreet Lamba/ LBMAT00001518560	Plot No. 17 & 18, D Situated At Radha Nagar, Krishna Nagar Mathura/ February 08, 2024	September 25, 2023 Rs. 6,76,178/-	Mathura
2.	Gurvinder Singh Lamba/ Ravinder Singh Lamba/ Gulshan Veer Lamba/ LBMAT00001304107	Plot No. 17 & 18, D Situated At Radha Nagar, Krishna Nagar Mathura/ February 08, 2024	September 25, 2023 Rs.17,73,836/-	Mathura/ Agra

The above-mentioned borrowers(s)/ guarantors(s) are hereby given a 30 day notice to repay the amount, else the mortgaged properties will be sold on the expiry of 30 days from the date of publication of this Notice, as per the provisions under the Rules 8 and 9 of Security Interest (Enforcement) Rules 2002.

Date: February 13, 2024 **Authorized Officer** ICICI Bank Limited Place: Mathura (Agra)

ARAVALI SECURITIES & FINANCE LIMITED CIN - L67120HR1980PLC039125 REGD OFFICE: PLOT No.136, GROUND FLOOR, RIDER HOUSE, SECTOR 44, GURGAON-122003, HARYANA. Email: info@aravalisecurities.com, Website: www.aravalisecurities.com STATEMENT OF STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER & NINE MONTHS ENDED 31ST DECEMBER, 2023 (Rs. in lacs)

	Average to the control of the contro	(uarter Ende	d	Nine Mon	Year Ended	
SI. No.	Particulars	31/12/2023 (Unaudited)	30/09/2023 (Unaudited)	31/12/2022 (Unaudited)	31/12/2023 (Unaudited)	31/12/2022 (Unaudited)	31/03/2023 (Audited)
1	Total income	20.72	16.21	14.64	53.11	46.05	64.66
2	Net Profit / (Loss) for the period before tax, (before Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.99)	(9.11)	(16.02)	(34.89)	(34.86)	(43.97)
3	Net Profit / (Loss) for the period before tax (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.99)	(9.11)	(16.02)	(34.89)	(34.86)	(43.97)
4	Net Profit / (Loss) for the period after tax, (after Exceptional and/or Extraordinary items)	(10.99)	(9.23)	(16.02)	(35.01)	(34.79)	(31.87)
5	Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/Loss] for the period (after tax) and the comprehensive Income (after tax)	(10.87)	(9.11)	(15.91)	(34.65)	(34.53)	(34.21)
6	Equity Share Capital	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	1 100					(1534.18)
8	Earnings Per Share (of Rs. 10/- each)	Amorana modernia	Victoria de la Companio	191 - 20000000	We the second	North Control of the	la mari
200	Basic :	Rs (0.07)	Rs (0.06)	Rs (0.11)	Rs (0.23)	Rs (0.23)	Rs (0.21)
	Diluted:	Rs (0.07)	Rs (0.06)	Rs (0.11)	Rs (0.23)	Rs (0.23)	Rs (0.21)

Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the audited financial results are available on the website of BSE Limited (www.bseindia.com) where the securities of the Company is listed and on the website of the Company at The above financial results have been prepared in accordance with Indian Accounting Standards ('Ind AS') prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 ("the Act"), having regard to the recognition and measurement principles laid down in Ind AS 34 ("Interim Financial Reporting") and other

recognized accounting practices generally accepted in India and in compliance with Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015 (the "Listing Regulations"). The aforementioned unaudited result of the company for the quarter & nine month ended 31st December, 2023 have been reviewed by the Audi Committee and approved by the Board of Directors in their meeting held on 12th Feburary, 2024.

The Statutory Auditors of the Company have carried out limited review of the aforementioned unaudited financial result of the company for the quarter & nine month ended 31st December, 2023 and has given unmodified opinion on the same.

Provision for faxation under Income Tax Act, 1961 has been made based on the anticipated taxable income for the year as a whole. The Company's operations at present are confined to only one segment i.e. providing Financial and Other Advisory Services and accordingly there are no

separate reportable operating segments as per Ind AS 108 - Operating Segments. The figures for the guarter ended 31st December, 2023 are the balancing figures being difference between the unaudited figures in respect of nine month

31st December, 2023 and the published year to date figures upto the six months 30th September, 2023, of the relevant financial year. The Figures of the previous quarter / year have been regrouped / rearranged whenever necessary, in order to make them comparable

By order of the Board For Aravali Securities & Finance Limited

Date: 12th February, 2024

Place: Gurgaon

Ranian Kumar Poddar Chairman & Managing Director

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED

Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052 Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

EXTRACT FROM STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023 Quarter Preceding Corres Vear to date Vear to date

PARTICULARS	Quarter ended	Preceding 3 months ended	Corres- ponding 3 months ended in the Previous Year	figures for current Period ended	figures for previous Period ended	Previous Year ende
	31.12.2023	30.09.2023	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	7.48	7.42	6.82	22.17	20.88	28.85
Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.10	-0.20	0.51	0.23	1.66
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.10	-0.20	0.51	0.23	1.66
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.21	-0.15	0.42	0.17	1.16
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.22	0.21	-0.15	0.42	0.17	1.16
Equity Share Capital	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	81.47
Earnings per share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.04
Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.04
					- 11	

Place : Delhi

Date: 12.02.2024

financialexp.epap.in

- 1. The above results were reviewed and recommended by the audit committee and then approved by the board of directors at their meeting held on February 12, 2024 2. 'The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind
- AS), as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other recognized accounting practices and the policies to the extent applicable.
- 3. The Company has not received any complaint from investors during the guarter ended on 31.12.2023 4. The Business activity of the Company falls with in a single primary business segment and there are no reportable segments.
- 5. That the Company was required to comply with order of Reserve Bank of India ("RBI") dated 31st May 2019 regarding cancellation of NBFC certificate and compliance of the requirements for reduction of loans and investment below the threshold by 31st May 2022. As at the year end, the Company holds more than 90 per cent of the net assets in the form of investment in equity shares and loan in group companies and accordingly the Company has proposed to apply for registration of the Company as Core Investment Company ("CIC" with RBI, however the process of the same and filing to RBI is still under process. Further, the management is of the view that the compliance with Division III of Schedule III to the Companies Act, 2013 would be carried out on receipt of Certificate of Registration from
- 6. Figures for the corresponding period have been regrouped/recasted/rearranged wherever necessary to make them comparable. 7. The unaudited results of the Company for the quarter ended December 31, 2023 are available on the Company's website (www.sfclindia.com) and on the website of MSEI (www.msei.in). For and on behalf of the Boar

Vineet Goel

(Director) DIN: 06852762

AU SMALL FINANCE BANK LIMITED (A SCHEDULED COMMERCIAL BANK) Regd. Office :- 19-A, Dhuleswar Garden, Ajmer Road, Jaipur-302001, CIN L36911RJ1996PLC011381

APPENDIX IV [SEE RULE 8(I) POSSESSION NOTICE]

Whereas, The undersigned being the AUthorized Officer of the AU Small Finance Bank Limited (A Scheduled Commercial Bank) under the "Securitization and Reconstruction of Financial Assets and Enforcement of Security Interest Act, 2002" and in exercise of Powers conferred under Section 13 read with the Security Interest (Enforcement) Rules, 2002, issued demand notice dated 02-December-2023 vide Ref. No.: CB/SAR/13-2/BB/DEC-2023/02 Loan Account No. 2221245539851534, 9001222627974680 & 9001220328207583 calling upon the Borrower/Guarantors /Mortgagors M/S. IKKI SAREE CENTRE THROUGH ITS PARTNERS MR. NIKHIL KUMAR GOENKA, MRS. NIRMALA DEVI GOENKA, MRS. ALKA GOENKA, MR. AJAY GOENKA, MRS. SANDHYA GOENKA (Borrower/Mortgagor), MR. NIKHIL KUMAR GOENKA S/O OM PRAKASH GOENKA (Guarantor), MRS. NIRMALA DEVI GOENKA W/O OM PRAKASH GOENKA (GUARANTOR), MR. AJAY GOENKA S/O MR. LAXMI NARAIN GOENKA (Guarantor/Mortgagor), MRS. ALKA GOENKA W/O ASHOK KUMAR GOENKA (Guarantor), MRS. SANDHYA GOENKA W/O MR. AJAY GOENKA (Guarantor/Mortgagor) to repay the amount mentioned in the notices being is for Loan Account No. 2221245539851534 Rs. 6,23,30,532 (Rupees Six Crore Twenty Three Lakh Thirty Thousand Five Hundred and Thirty Two Only), For Loan Account No. 9001222627974680 Rs. 30,63,965/- (Rupees Thirty Lakh Sixty Three Thousand Nine Hundred and Sixty Five Only) and for loan account No. 9001220328207583 Rs. 40.44.381/- (Rupees Forty Lakh Forty Four Thousand Three Hundred and Eighty One Only) collectively total amount Rs. 6,94,38,878/- (Rupees Six Crore Ninety Four Lakh Thirty Eight Thousand Eight Hundred Seventy Eight Only) as on 01st December 2023 aggregating total due (which includes principal, interest, penalties and all other charges) with further interest and charges until payment in full within 60 days from the date of notice/date of receipt of the said notice. The borrower/ co-borrower/ mortgagor having failed to repay the amount, notice is hereby given to the borrower/ co-borrower/ mortgagor and the public in general that the undersigned has taken possession of the property described herein below in exercise of powers conferred on him/her under Section 13(4) of the said Act read with Rule 8 of the said Rules on this **09** day of **February** of the year **2024**.

The borrower's attention is invited to provisions of sub section (8) of section 13 of the Act, in respect of time available to redeem the secured assets"

The borrower/Co borrowers/ mortgagors in particular and the public in general is hereby cautioned not to deal with the property and any dealings with the property will be subject to the charge of the AU Small Finance Bank Limited for an amount of for Loan Account No. for Loan Account No. 2221245539851534 Rs. 6,36,81,155 (Rupees Six Crore Thirty Six Lakh Eighty One Thousand One Hundred and Fifty Five Only), For Loan Account No. 9001222627974680 Rs. 32,39,867/- (Rupees Thirty Two Lakh Thirty Nine Thousand Eight Hundred and Sixty Seven Only) and for loan account No. 9001220328207583 Rs. 41,91,689/- (Rupees Forty One Lakh Ninety One Thousand Six Hundred and Eighty Nine Only) collectively total amount Rs. 7,11,12,711/- (Rupees Seven Crore Eleven Lakh Twelve Thousand Seven Hundred Eleven Only) as on 05 February 2024 and further interest & expenses thereon until full payment.

DESCRIPTION OF IMMOVABLE PROPERTIES 1. All that part and parcel of residential property, Entire First Floor, Second Floor &

Situated at Phatak Rashid Khan, Jogiwara, Nai Sarak, Delhi. First floor & Second floor is owned by M/S. Ikki Saree Centre through its partners & Third floor is owned by Mr. Ajay Goenka. East: Jhot Below West: Gali South: Gali North: Others Property 2. All that part and parcel of Residential Property, 1st Floor, Without Roof Rights, (Above stilt for parking and ground floor) Part of Property Bearing No. 55, Block "B",

Third Floor, with its Roof/Terrace Rights, Being Part of Property Bearing No. 5871 &

5872 Ward No. VI, Built on Free Hold Land Area Measuring 108 Sq. Yards Approx,

Admeasuring 204.9 Sq. Yards, Situated at The Layout Plan of The Delhi State Government Employees Co-Operative house building society Ltd., CC Colony, Opposite Rana Pratap Bagh, G.T. Road, New Delhi - 110009. Owned by Mrs. Sandhya Goenka. East: Other property West: Other property

South: Road.

Authorised Officer Date: 09.02.2024 Place : Delhi Au Small Finance Bank Limited ZEL JEWELLERS LIMITED CIN: L74899DL1994PLC058832 Registered Office: E-5, South Extension, Part-II, New Delhi-110049

Nine Months ended 31st December, 2023

(Rs.in Lacs except per share data)

5.23

DIN: 00122870

Phones: 011-26252416, 011-226259288, FAX: 011-41640689 E-mail: zeljewellers@yahoo.co.in Statement of Unaudited Standalone Financial Results for the Third Quarter &

Paticulars Quarter Ended Nine Months 31.12.2023 31.12.2022 31.12.2023 Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) 2554.49 Total Income from Operations 2826.97 5569.23 Net Profit / (Loss) for the period before Tax, Exceptional and/or Extraordinary items) 185.95 314.91 427.98 Net Profit / (Loss) for the period before tax (after 185.95 314.91 427.98 Exceptional and/or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period after tax (after 161.55 185.71 283.34 Exceptional and/or Extraordinary items) Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) 161.55 185.71 283.34 and Other Comprehensive Income (after tax)] 355.00 355.00 Paid up Equity Share Capital (of Rs. 10/- each) 355.00 Reserves excluding Revaluation Reserves (As per previous acc. Year) Earnings Per Share (for continuing and discontinued operations)-4.55 5.23

The above is an extract of the detailed format of the Unaudited Financial Results for the Third Quarter & amp; Nine Months ended 31st December, 2023 filed with the MSEI under Regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulations, 2015. The full format of the Financial Results for the Third Quarter & Nine Months ended 31st December, 2023 is available on the MSEI website (www.mylisting.msei.lin) and Company's website (https://rkjewellers.in/). The above un-audited financial results were reviewed by the Audit Committee and approved

2. Diluted

by the Board of Directors in its meeting held on 12th February, 2024. For ZEL JEWELLERS LIMITED

4.55

RAKESH SHARMA Date: 12.02.2024 (MANAGING DIRECTOR)

> SYSTEMATIX SECURITIES LTD. CIN: L65999RJ1986PLC070811

Regd. Off.: Plot 35, Old Industrial RIICO Area, Chittorgarh, Rajasthan, India 312001 Tel. no.: +91- 9414111117, E-mail- systematixctor@gmail.com Statement of Unaudited Financial Results For the Quarter and Nine Months Ended December, 31, 2023

(Rs. In Lakhs except EPS) **Particulars** Nine Months

No.				Ended
		31.12.2023 Unaudited	31.12.2022 Unaudited	31.12.2023 Unaudited
1	Total Income from operations	7.89	9.18	24.61
2	Net Profit/(Loss) for the period (before tax & Exceptional items)	0.55	1.06	(3.37)
3	Net Profit/(Loss) for the period before tax after Exceptional items)	0.55	1.06	(3.37)
4	Net Profit/(Loss) for the period after tax And Exceptional items)	0.41	0.79	(3.37)
5	Total comprehensive income for the period (Comprising Profit/Loss for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)	0.41	0.79	(3.37)
6	Paid up Equity Share Capital (Face Value of Rs. 10/- each)	500.00	500.00	500.00
7	Other Equity (Reserves)			
8	Earnings per share (of Rs. 10/- each) Basic and Diluted EPS	0.01	0.02	(0.07)

financial results filed with the Stock exchange under Regulation 33 of the SEBI (Listing Obligation and Disclosure Requirements) Regulation, 2015. The full formats of the Quarterly Financial Results are available on the Stock Exchange website (www.bseindia.com) and also on the company's website at (www.systematixsecurities.in). For & on behalf of Board

> Rajesh Kumar Inani Director (DIN: 00410591)

SYSTEMATIX SECURITIES LTD.

Form No. INC-25A Advertisement to be published in the newspaper for conversion of public company into a private company

Before the Regional Director, Ministry of Corporate Affairs Delhi Region In the matter of the Companies Act, 2013, section 14 of Companies Act, 2013 and rule 41 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014

In the matter of M/s CDG INSPECTION

LIMITED having its registered office situated at 1/22, 2nd FLOOR ASAF ALI ROAD NEW DELHI 110002.Applicant Notice is hereby given to the general public that the company intending to make an application to the Central Government under section 14 of the Companies Act, 2013 read with aforesaid rules and is desirous of converting into a private limited company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on 08-02-2024 to enable the company to give effect for such conversion. Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change/status of the company may deliver or cause to be delivered or send by registered post of his objections supported by an affidavit stating the nature of his interest and grounds of opposition to the concerned Regional Director within fourteen days from the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its registered office at the address mentioned below For and on behalf of the Board CDG Inspection Limited, (1 /22, 2nd FLOOR ASAF ALI ROAD NEW DELHI 110002 NISHI (DIN: 05115281) Director

Date: 08-02-2024 Place: New Delhi

Form No. INC- 26 [Pursuant to Rule 30 Companies (Incorporation) Rules, 2014] Advertisement to be published in the newspaper for change of registered office of the company from one state to another BEFORE THE CENTRAL GOVERNMENT (REGIONAL DIRECTOR), NORTHERN REGION, NEW DELHI

In the matter of sub-section (4) of Section 13 of Companies Act, 2013 and clause (a) of sub-rule (5) of rule 30 of the Companies (Incorporation) Rules, 2014 AND In the matter of

Tecniqua India Private Limited (CIN: U31907DL2020PTC372137) having its Registered Office at E-20, 2" Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016, India

Notice is hereby given to the General Public that

the Company proposes to make application to the

Central Government under Section 13 of the Companies Act, 2013 seeking confirmation of alteration of the Memorandum of Association of the Company in terms of the special resolution passed at the Extra Ordinary General Meeting held on Friday, 19 January 2024 to enable the Company to change its Registered office from the "State of Delhi" to the "State of Uttar Pradesh". Any person whose interest is likely to be affected by the proposed change of the Registered Office of the moany may deliver either on the MCA-21 portal (www.mca.gov.in) by filing investor complaint form or cause to be delivered or send by registered post of his/her objections supported by an Affidavit stating the nature of his/her interest and grounds of opposition to the Regional Director.

110003 within fourteen (14) days of the date of publication of this notice with a copy to the applicant company at its Registered Office address mentioned below: E-20, 2" Floor, Hauz Khas, New Delhi-110016, India For Tecniqua India Private Limited Narender Kumar Patni Date : 13.02.2024 Director Place: New Delhi DIN: 09798023

Northern Region at B-2 wing, 2" Floor, Paryavaran Bhawan, CGO Complex, New Delhi-

EKAM LEASING AND FINANCE CO. LTD. CIN-L74899DL1993PLC055697, Email ID: ekam.leasing1@gmail.com

Place: Chittorgarh

Date: 12/02/2024

Regd. Off.: NO. 11, RANI JHANSI ROAD, (MOTIA KHAN), M.M. ROAD, NEW DELHI -110055 EXTRACT OF STANDALONE AND CONSOLIDATED UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER 2023

	(2)	(STANDA	ALONE					CONSOL	IDATED		
S.		(Quarter Ended	d '	Nine Mon	nths Ended	Year Ended		Quarter Ended	ď	Nine Mon	nths Ended	Year End
No.	Particulars -	31.12.2023 (Unaudited)	30.09.2023 (Unaudited)	31.12.2022 (Unaudited)		31.12.2022 (Unaudited)) (Audited
1.	Total income from operations	15.97	16.90	16.55	49.70	48.16	63.09	15.98	16.90	16.55	49.71	48.16	63.0
	Net Profit/(Loss) for the period (before Tax,	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	Exceptional and/or Extraordinary items)	5.44	3.82	-49.19	10.13	-39.67	-41.04	10.94	8.79	-43.60	26.62	-22.79	-23.7
	Net Profit/(Loss) for the period before Tax,	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	(after Exceptional and/or Extraordinary items) items		1	1	1!	1!	1	1	1!	1!	1	1	1
	and/or item Extraordinary items)/Profit or loss of JV	5.44	3.82	-49.19	10.13	-39.67	-41.04	10.94	8.79	-43.60	26.62	-22.79	-23.
	Net Profit /(Loss) for the period after tax	1 200	200	1 22.40	1 200	20.05	20.00	1 7.00	1 750	24.00	24.00	10.05	1
	(after Exceptional and/or Extra- ordinary items)	3.36	2.62	-36.40	6.62	-29.37	-30.38	7.43	7.59	-31.26	21.69	-12.95	-18.
	Total Comprehensive Income for the period	1	1 1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
	[Comprising Profit /(Loss) for the period (after tax)]		2.62	26.40	6 62	30.37	20.20	7.42	7.50	21.26	21 60	12.05	10
	and Other Comprehensive Income (after tax)]	3.36	2.62	0.00	6.62					-31.26 300	21.69	-12.95 300	-18.°
	Equity Share Capital Reserves (excluding Revaluation Reserve as	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	300	1
	shown in the Balance Sheet of previous year)	I = I'	1 1	1 _!	1 !	1 !	-10.01	1 - 1	1 1	I = I'	1	4 .1	526.
	Earnings Per Share (of `Rs.5/-each)	I = I	1 1	1	1	1	-10.01	1	1	1 1	1 1	1	020.
	(for continuing operations)-	1	1 1	1	1	1	1	1	1 1	1		1	1
	Basic:	0.06	0.04	-0.61	0.11	-0.49	-0.51	0.12	0.13	-0.52	0.36	-0.22	-0.
	Diluted:	0.06	0.04		0.11			0.12				-0.22	-0.

Place: New Delhi

North: Road.

The above results are an extract of the detailed format of Unaudited Financial Results (Standalone and Consolidated) for the Quarter and Nine months ended on December 31, 2023 filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements) Regulations, 2015. The full format of the Standalone and Consolidated Financial Results is available on the Stock Exchanges website i.e. (www.bseindia.com) & and on the Company's website (www.ekamleasing.com).

Previous Years/ Quarterly figures have been regrouped/rearranged, wherever necessary.

The results for the quarter and nine months ended on December 31, 2023 are in Compliance with Indian Accounting Standards (IND-AS) as notified by the Ministry of Corporate Affairs. The above result were reviewed by the Audit Committee and were approved and taken on record by the Board of Directors at its meeting held on February 12, 2024.

Ekam Leasing and Finance Co. Ltd. Rakesh Jain **Chairman cum Managing Director**

On Behalf of The Board of Directors

DIN: 0006173

(₹ Lakhs)

Date- 12th February, 2024

DCM SHRIRAM INDUSTRIES LIMITED CIN: L74899DL1989PLC035140

Kancheniunga Building, 18, Barakhamba Road, New Delhi - 110 001

Tel.: 011-43745000, E-mail: dsil@dcmsr.com, Website: www.dcmsr.com EXTRACT OF UNAUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER / NINE MONTHS ENDED 31 DECEMBER 2023

Standalone Consolidated Quarter ended **PARTICULARS** Quarter ended Nine month ended Year ended Nine month ended Year ended No 31.12.2023 | 31.12.2022 | 31.03.2023 | 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 | 31.12.2023 | 31.12.2022 31.12.2023 | 30.09.2023 | 31.12.2022 31.03.2023 (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) (Unaudited) (Unaudited) (Unaudited) (Audited) Total income from Operations 58,485 57,935 1,58,823 1,82,639 47,595 58,509 57,950 1,58,884 47,571 2,36,781 1,82,685 2,36,843 Net Profit / (Loss) for the period (before Tax. 1,659 4,218 9.030 4.407 3.190 1,698 4,355 3,128 11,715 11,749 4,279 9,095 Exceptional and / or Extraordinary items) Net Profit / (Loss) for the period before Tax 4,355 1,659 11,715 4,218 4,407 3,190 1,698 4,279 9,095 3,128 9,030 11,749 (after Exceptional and / or Extraordinary items) 2,819 1,132 7,674 6,016 Net Profit / (Loss) for the period after tax 2,868 2,016 1,103 7,657 6,026 2,905 2,061 2,863 (after Exceptional and / or Extraordinary items) Total Comprehensive Income 7,500 2,955 2,008 1,176 5,780 1,963 1,148 5,788 2,854 7,517 2,997 (Comprising net profit / (loss) & Other Comprehensive Income/(Loss) after tax} 1,740 Equity Share Capital 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 1,740 68,181 69,927 Other Equity Basic and diluted earnings per share (₹) 3.30 3.24 1.30 (Not annualised) 2.32 1.27 8.80 6.93 3.34 2.37 8.82 3.29 6.92

Notes:

- 1. In accordance with the accounting policy consistently followed by the Company, off-season expenditure for the nine month ended 31 December 2023 aggregating ₹ 2,899 Lakhs (corresponding period ₹ 3,474 Lakhs) has been deferred for inclusion in the cost of sugar to be produced in the remainder of the year.
- accounting practices and policies to the extent applicable. There has been ambiguity with regard to chargeability of UP VAT or GST on certain supplies made to a party and therefore no tax is charged on invoices raised for such supplies. The Hon'ble Allahabad High Court has held that no

2. This Statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013, as amended, and other recognized

- VAT is chargeable on such transactions. This matter is sub-judice before the Hon'ble Supreme Court. GST demand is raised on these transactions from July, 2017 which is contested and is adequately provided as provision for contingencies with corresponding reimbursement asset based on back-to-back undertaking by the party to indemnify for any liability that may finally arise.
- GST council in its meeting dated October 7, 2023 has ceded the right to tax such supplies to state governments. Pending necessary amendments in the GST laws, the company has continued the same accounting treatment in respect of the transactions as in previous quarter(s). The Board of Directors in the meeting held on 14 November, 2023 approved a Composite Scheme of Arrangement ("the Scheme") between DCM Shriram Industries Limited and DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited (wholly owned subsidiaries of DCM Shriram Industries Limited) and Lily Commercial Private Limited, for amalgamation of Lily Commercial Private Limited with DCM Shriram Industries Limited, and
- subsequent demerger of Chemical and Rayon businesses of DCM Shriram Industries Limited into DCM Shriram Fine Chemicals Limited and DCM Shriram International Limited, respectively, with effect from the appointed date of 1 April 2023, subject to regulatory and statutory approvals, as applicable. Pending the necessary approvals, the effect of the Scheme has not been given in the financial results. 5. The above financial results have been reviewed by the Audit Committee and then approved by the Board of Directors in its meeting held on 12 February 2024. The above financial results are available on the Company's website

O DCM SHRIRAM

ALOK B. SHRIRAM Sr. Managing Director & CEO DIN: 00203808

For and on behalf of the Board

Dated: 12 February, 2024

Place: New Delhi

www.dcmsr.com and also on www.bseindia.com & www.nseindia.com.

New Delhi

COURTNOTICE In The Court Of Sh. Sudhir Kumar Additional Civil Judge (Senior Division),

Talwandi Sabo Balwinder Kaur

Vs. General Public CNR NO: PBBTA0-000046-2024 Next Date: 22-03-2024

Publication Issued To: General Public :-

General Public In above titled case, the defendant (s)/respondent(s) could not be served. It is ordered that defendant (s)/ respondent(s) should appear in person or through counsel on 22-03-2024 at 10:00 a.m. for details logon to: strict notice&district=Bathinda

https://highcourtchd.gov.in/?mod=di Addl. Civil Judge (Sen. Div.) Talwandi Sabo

IN The Court Of Sh. Tarunpreet

Singh Judicial Magistrate Ist Class, Ludhiana Neha

Vs. Mohd. Atif CNR NO: PBLD03-029545-2020 Next Date: 16-03-2024

COMA/ 6637/2020 Publication Issued To: Mohd. Atif resident of house no 313.56F 49A. Anand Nagar Inder Lok,

Delhi 110003 In above titled case, the accused could not be served. It is ordered that accused should appear in person or through counsel on 16-03-2024 at 10:00 a.m. for details logon to:

Near Saba Nursing Home.

https://highcourtchd.gov.in/?trs=dist rict notice&district=Ludhiana JMIC Ludhiana

प्रपत्र सं. आइएनसी-26 किंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के अनुसरण में]

कंपनी के पंजीवृत कार्यालय एक राज्य से इत्तरे राज्य में परिवर्तन के लिए समाधार पत्र में प्रकाशित किया जाने वाला विज्ञापन केन्द्र सरकार (क्षेत्रीय निदेशक) उत्तरी क्षेत्र नई दिल्ली के समक्ष

कंपनी अधिनियम, 2013 की घारा 13 की उप-धारा (4) और कंपनी (निगमन) नियम, 2014 के नियम 30 के उपनियम (5) के खंड (ए), के मामले में

टेक्नीक्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (सीआईएन- U31907DL2020PTC372137) जिसका पंजीकृत कार्यालय ई-20, दूसरी गॅजिल, हौज खास, नई दिल्ली-110016 भारत

लददारा सार्वजनिक सचना दी जाती है कि वह कंपनी केंद्र सरकार क्षेत्रीय निदेशक के समझ कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 13 के तहत केंद्र सरकार को आवेदन करने का प्रस्ताव करती है, जिसमें कंपनी अपने पंजिकत कार्यालय को "दिक्ली राज्य" से "चत्तर प्रदेश राज्य" में स्थानांतरित करने के तिए शुक्रवार, 19 जनवरी 2024 को आयोजित लाधारण आम बैतक में पारित विशेष प्रस्ताव के अनसार कंपनी के मेमोरेंडम ऑफ एसोसिशन के परिवर्तन की पृष्टि करने की मांग की गई है। कंपनी के पंजीकत कार्यालय के प्रस्तावित स्थानांतरण से यदि किसी व्यक्ति का हित प्रभावित होता है तो वह व्यक्ति वा तं निवंशक शिकायत प्ररूप फाइल कर एमसीए-21 पोर्टल (www.mca.gov.in) पर शिकायत दर्ज कर सकता है वा एक शपथ पत्र जिसमें उनके हित का प्रकार और उसके विरोध का कारण उल्लिखित हो. एक हलकनामे द्वारा समर्थित आपत्तियों को क्षेत्रीय निदेशक, उत्तरी क्षेत्र बी-2 विंग, दूसरी मंजिल, पंडित दीनदयाल अंत्योदय भवन, सीजीओ कॉम्पलेक्स, नई दिल्ली - 110003 पर इस स्वाना के प्रकाशन की तारीख से **चीदह दिनों** के मीतर पंजीकृत ठाक द्वारा भंज सकता है और आवेदक कंपनी को उसके नीचे उल्लिखित पंजीकृत कार्यालय के

पते पर एक प्रति के साथ भेजें । ई-20, दूसरी मंजिल, हौज खास, नई दिल्ली - 110016 भारत

是

Date: 12.02.2024

टेक्नीक्वा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड नरेंद्र कुमार पटनी दिनांक: 13.02.2024 स्थान : नई दिल्ली बीआईएन: 09798023

suspension of trading of equity shares of the company.

copy) at below mentioned address on urgent basis.

Soft-Copy:-companysecretary@atlascycles.co.in

Place: Gurugram, Haryana

Date- 12.02.2024

www.readwhere.com

कृते एवं के लिये,

ATLAS CYCLES (HARYANA) LIMITED

Regd. Office: Industrial Area, Atlas Road, Sonepat - 131001

CIN No: L35923HR1950PLC001614

General Notice

In continuation to various personal reminders (via emails and speed post) Atlas Cycles (Haryana) Limited, invites self-attested PAN Card copy of promoters & directors of the company regarding

submission of reply of query as raised by BSE in compliance to process of revocation of

This is for your kind information that most of the promoters & directors have already submitted

their self-attested pancard with the company. We again request all those promoters and directors

who have not yet submitted their copy, kindly submit self-attested pancard copy (hard copy or soft

Hard Copy:-Plot No. 55, Site-IV, UPSIDC Industrial Area, Sahibabad, Ghaziabad, Uttar Pradesh 20101

एनआईआईटी लिमिटेड NIIT पंजी. कार्वालयः प्लॉट नंठ. 85, सेक्टर 32, इंस्टीट्युशनल एरिया,

गुरूग्राम - 122001, (हरियाणा) CIN: L74899HR1981PLC107123 फोन नo.: 0124- 4293000, वेबसाइट: www.niit.com; ईमेल: investors@niit.com ढाक मतपत्र सूचना

सदस्यों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 110 के साथ पठित धारा 108 के प्रावधानों और अन्य लागू प्रावधान, यदि कोई हो के साथ पठित कंपनी (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम, 2014 ("नियम") के नियम 20 एवं 22, भारतीय प्रतिभूति तथा विनिमय बोर्ड (सचीयन बाध्यताएं एवं प्रकटीकरण आवश्यकताए) विनियम, 2015 ("सचीयन विनियम") के विनियम 44 भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी जारी किए गए सामान्य बैठकों पर सचिवीय मानक ("एसएस-2"), प्रत्येक यथासंशोधित के अनुसरण में और कॉर्पोरेट कार्य मंत्रालय द्वारा सामान्य परिपत्र सं. 14/2020 दिनांक 8 अप्रैल, 2020, 17/2020 दिनांक 13 अप्रैल, 2020, 22/2020 दिनांक 15 जून, 2020, 33/2020 दिनांक 28 सितम्बर, 2020, 39/2020 दिनांक 31 दिसम्बर, 2020, 10/2021 दिनांक 23 जून, 2021, 20/2021 दिनांक 8 दिसम्बर, 2021, 3/2022 दिनांक 5 मई, 2022, 10/2022 दिनांक 28 दिसम्बर, 2022 एवं 09/2023 दिनांक 25 सितम्बर, 2023 (यहां के बाद संयुक्त रूप से "एमसीए परिपत्र" के रूप में संदर्भित) और जारी किए गए अन्य लागू परिपत्रों एवं अधिसूचनाओं (समय-समय पर वर्तमान में लागू एवं यथासंशोधित कोई भी साविधिक संशोधन या पुनः अधिनियमन सहित) के माध्यम से आम बैठकों / ई-वोटिंग द्वारा ठाक मतपत्र प्रक्रिया के आयोजन के लिए निर्धारित आवश्यकताओं के अनुपालन में कंपनी ने उन सभी सदस्यों को केवल इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सोमवार, 12 फरवरी, 2024 को ढाक मतपत्र सचना मेज दी है जिनके नाम शुक्रवार, 9 फरवरी, 2024 अर्थात् कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/ डिपॉजिटरीज से प्राप्त लाभार्थी स्वामियों की सूची में शामिल हैं और जिन्होंने कंपनी (भौतिक प्रारूप में घारित शेयरों के संबंध में) और / या डिपॉजिटरी प्रतिमागियों (डिमेटिरियलाइज्ड प्रारूप में घारित शेयरों के संबंध में) के पास अपना ई-मेल पता पंजीकत कराया है और संबंधित ढिपॉजिटरीज द्वारा इसे कंपनी को उपलब्ध कराया गया है। सदस्यों को डाक मतपत्र सूचना की भौतिक प्रति भेजने की आवश्यकता एमसीए परिपत्रों के माध्यम से समाप्त कर दी गई है। एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में सदस्यों से सहमति या असहमति केवल रिमोट ई-वोटिंग सिस्टम के माध्यम से ली जाएगी। कंपनी अपने सदस्यों को नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड ("एनएसडीएस") के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक बोटिंग सिस्टम **("रिमोट ई-बोटिंग")** का उपयोग करके अपने बोट देने की सुविधा

डाक मतपत्र सूचना के माध्यम से और उसमें सदर्गित व्यवसाय की मद के निष्पादन से संबंधित दस्तावेज ई-मेलः investors@nit.com पर अनुरोध मेजने पर कंपनी द्वारा अपने सदस्यों के लिए निरीक्षण हेत् इलेक्ट्रॉनिकली उपलब्ध कराये जाएंगे।

एमसीए परिपत्रों के संदर्भ में उन सदस्यों को रिमोट ई—वोटिंग प्रक्रिया में भागीदारी को सक्षम करने के लिए जिन्होंने अभी तक अपना ई—मेल पता पंजीकृत नहीं किया है और जिन्हें भौतिक डाक मतपत्र नहीं भेजा जा रहा है, उनके लिए कंपनी ने उपरोक्त कथित परिपत्रों के संदर्भ में ई-मेल पता पंजीकरण के लिए रजिस्टार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट के पास व्यवस्था की है।

भौतिक प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यगण जिन्होंने अपना ई-मेल पता कंपनी के पास पंजीकृत/अपडेट नहीं कराया है, उनसे अनुरोध है कि अपना नाम, पता, फोलियो नम्बर एवं सदस्य के पैन कार्ड की स्व-सत्यापित प्रति के साथ हस्ताक्षित अनुरोध पत्र कंपनी के पास investors@nit.com पर या रजिस्ट्रार एवं शेयर ट्रांसफर एजेंट (आस्टीए), अलंकित एसाइनमेंट्स लिमिटेड के पास rta@alankit.com पर भेजकर इसे पंजीकत/अपडेट कराए।

डिमेटिरियलाइण्ड प्रारूप में शेयर धारण करने वाले सदस्यों से अनुरोध है कि वे अपने डिपॉजिटरी प्रतिभागी के पास अपना ई-मेल पता पंजीकृत / अपठेट कराएं।

ऐसा व्यक्ति जिसका नाम कट-ऑफ तिथि को सदस्यों के रजिस्टर/डिपॉजिटरीज द्वारा तैयार किये गये लाभार्थी स्वामियों की सूची (इलेक्ट्रॉनिक शेयरहोल्डिंग के मामले में) में दर्ज होगा, केवल वहीं रिमोट ई-वोटिंग द्वारा अपना वोट देने के लिए योग्य होंगे। सदस्यों का वोटिंग अधिकार कट-ऑफ तिथि को कंपनी की प्रदत्त इक्विटी शेयर पूंजी के उनके शेयरों के आनुपातिक होगा। रिमोट ई-वोटिंग अवधि बुधवार, 14 फरवरी, 2024 (प्रात: 9.00 बजे आईएसटी) प्रारंभ होगी और गुरूवार, 14 मार्च, 2023 (सायं 5.00 बजे आईएसटी) समाप्त होगी। उसके बाद एनएसडीएल द्वारा रिमोट ई-वोटिंग मॉडवुल इटा लिया जाएगा। सदस्य द्वारा प्रस्ताव पर एक बार वोट देने के बाद उसे किसी भी स्थिति में बाद में बदलने की अनुमति नहीं होगी।

एनएसढीएल द्वारा उपलब्ध कराई गई रिमोट ई—वोटिंग सुविधा का लिंक <u>www.evojing.nsdl.com</u> पर उपलब्ध है जो शेयरधारक को इलेक्टॉनिकली अपना वोट देने के लिए सक्षम करेगा। रिमोट ई-वोटिंग तथा ई-मेल पते के पंजीकरण के संबंध में विस्तृत निर्देश एवं जानकारी शेयर धारकों को मेजी गई डाक मतपत्र सूचना में दी गई है और कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nit.com पर उपलब्ध है।

श्री नित्यानंद सिंह, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 2668; सीपी 2388) या उनके स्थान पर, श्री गोहित बंसल, अभ्यासरत कंपनी सचिव (सदस्यता सं. एफसीएस 11292; सीपी 16860), को निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से ई-वोटिंग प्रक्रिया के माध्यम से ढाक मतपत्र आयोजित करने के लिए संवीक्षक के रूप में नियुक्त किया गया है।

प्रस्ताव, यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसे ई-वोटिंग की अंतिम तिथि अर्थात् 14 मार्च, 2024 को पारित माना जाएँगा। डाक गतपत्र का परिणाम कंपनी के अध्यक्ष या उनके द्वारा अधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सोमवार, 18 मार्च, 2024 को या उससे पूर्व घोषित किया जाएगा और इसकी सूचन स्टॉक एक्सचेंजों, डिपॉजिटरी को भी दी जाएगी और इसे कंपनी की वेबसाइट अर्थात www.nit.com और एनएसडीएल की वेबसाइट अर्थात www.evoting.nsd.com पर भी प्रदर्शित किया जाएगा। किसी भी पूछताछ के लिए, सदस्यगण www.evoting.nsdl.com के डाउनलोड सैक्शन पर उपलब्ध सदस्यों के लिए अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (एफएक्यू) और रिमोट ई-वोटिंग युजर मैनुअल का अवलोकन करें या 022 - 4886 7000 और 022 - 2499 7000 पर सम्पर्क कर सकते है या evoting@nsdl.com पर अन्रोध भेज सकते हैं।

> बोर्ड के आदेश से कृते एनबाईबाईटी लिमिटेड 5tm./-अर्पिता विसारिया मल्होत्रा

> > कंपनी सचिव

तिथि: 12 फरवरी, 2024 स्थानः गुरुग्राम

"IMPORTANT"

Whilst care is taken prior to acceptance of acvertising copy, it is not possible to verify its contents. The Indian Express (P) Limited cannot be held responsible for such contents, nor for any loss or damage incurred as a result of transactions with companies, associations or individuals advertising in its newspapers or Publications. We therefore recommend that readers make necessary inquiries before sending any monies or entering into any agreements with advertisers or otherwise acting on an advertisement in any manner whatsoever.

SEASONS

ऑस्क्रस् नलोबल लिमिटेड

रजि. कार्यालयः 1/22, दूसरी मंजिल आसफ अली रोड, नई दिल्ली-110002, दूरमाषः 9810337978, ई-मेल : oscar@oscar-global.com, वेबसाइटः www.oscar-global.net, सीआईएन जं. L51909DL1990PLC041701

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए उटँडअलोन अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण

क्रं. सं.	विवरण	तिमाही समाप्त ति31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	नौ मह समाप्त 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	पिछले वर्ष में समा संगत 3 महीने 31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)
1.	परिचालनों से कुल आय	7.87	13.90	6.83
	अवधि के लिए शुद्ध लाभ (कर से पहले, विशेष और /या असाधारण मदें)	3.53	(3.36)	0.15
3.	कर से पहले की अवधि के लिए सुद्ध लाभ (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद)	3.53	(3.36)	0.15
4.	कर के बाद की अवधि के लिए सुद्ध लाभ (विशेष और /या असाधारण मदें के बाद)	3.53	(3.36)	0.15
5.	अवधि के लिए कुल व्यापक आय [अवधि (कर के बाद) के लिए संयुक्त लाभ और अन्य व्यापक आय (हानि) (कर के बाद),	3.53	(3.36)	0.15
	प्रदत्त इविवटी शेयर पूंजी आरक्षितों	329.18	329.18	329.18
7.	पिछले वर्ष के लेखा—परीक्षित तुलन पत्र में दिखाए गए अनुसार (पुनर्मूल्यांकन आरक्षितों को छोड़कर)			
8.	प्रति शेयर आय (रु. १०/— प्रत्येक का) (जारी और बंद परिचालनों के लिए)			
	(वार्षिक नहीं): (क.): मूल (रु.)	(0.11)	(0.10)	
	(क.): नूस (रे.) (ख.): डाइलूटेड (रु.)	(0.11)	(0.10)	

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई और इसे कंपनी के निदेशक मंडल 12.02.2024 को आयोजित अपनी बैठक में अनुमोदित किया गया है।

उपरोक्त विवरण सेबी (सूचीबद्धतता दायित्व और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियम, 2015 विनियमन 33 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर 31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही और नौ माह के लिए स्टैंडअलोन वितीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। इसका पूर्ण प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाइटों (www.bseindia.com, www.nseindia.com) और कंपनी की वेबसाइट (www.oscar-global.net) पर उपलब्ध है।

> **ऑस्कर**्ग्लोबल लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए और उसकी ओर है (करण कनिका वर्मा

स्थानः नोएडा दिनांकः 12.02.2024

अग्रसेन स्पिनर्स लिमिटेड सीआईएनः L17297HR1998PLC034043 पंजीकृत. कार्यालयः द्वितीय तल, एससीओ 404, सेक्टर-20, पंचकृला ईमेल- aggarsaininspectors@gmail.com, फोन- 0172-4644777, वेबसाइट- www.aggarsaininspectors.com

31 दिसंबर, 2023 को समाप्त तिमाही हेत् स्टैंडअलोन अ—लेखापरीक्षित वितीय परिणामों का सार

1	<u> </u>	स्टैंडअलोन							
क्र. सं.	विवरण	\$1.12.2023 को तिमाही चमप्ति अ-लेळापरीक्षित	31.12.2023 को अवधि रामाप्ति अ-लेखापरीक्षित	31.03.2023 को वर्ष समाचि लेखामरीकित	31.12.2022 को तिमारी समापि अ-लेखापरीक्षिट				
1	संचातन से कुल आय	2,314.80	5,982.50	2,860.57	692.56				
2	अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (कर पूर्व, आपवादिक और/या असाधारण मर्दे)	18.53	34.99	52.35	2.09				
3	कर पूर्व अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (आपवादिक और/या असाधारण मदै पश्चातु)	18.53	34.99	52.35	2.09				
4	कर पश्चात् अवधि हेतु शुद्ध लाम/(हानि) (आपवादिक और/चा असाधारण मर्दे पश्चात्)	13.36	25.57	37.82	0.89				
5	अर्वाध हेतु कुल व्यापक आय [अर्वाध हेतु लाभ√(हानि) (कर पश्चात्) और अन्य कुल व्यापक आय (कर पश्चात्) शामिल]								
6	इक्किटी शेवर पूंजी	350.34	350.34	350.34	350.34				
7	रिजर्व (पुनर्मूख्यांकन रिजर्व को छोड़कर, जैसा कि पिछले वर्ष की तुलन पत्र में दर्शाया है			437.57	7				
8	प्रति शेयर आय (असाधारण मद पूर्व) (वार्षिकीकृत नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये)								
	(क) मूलमृत (ह.)	0.38	0.72	1.08	0.03				
3-	(ख) तरलीकृत (क.)	0.38	0.72	1.08	0.03				
9	प्रति शेयर आय (असाधारण मद पश्चात्) (वार्षिकीकृत नहीं) (प्रत्येक 10 रुपये)								
	(क) मृतभूत (रु.)	0.38	0.72	1.08	0.03				
	(ख) तरलीकृत (६.)	0.38	0.72	1.08	0.03				

. . उपरोक्त सेवी (लिस्टिंग और अन्य प्रकटीकरण आवश्यकलाएँ) विनियम, 2015 के विनियमन 33 के तहल स्टॉक एक्सचेंजों के साथ दायर अलेखापरीक्षित त्रेमासिक विनीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का एक उद्धरण है। वितीय परिणामों का पूरा प्रारूप स्टॉक एक्सचेंज की वेयसाइट (www.msei.in) और कंपनी की वेयसाइट (www.aggarsainspinners.com) पर

उपरोक्त परिणामों की समीक्षा लेखापरीक्षा समिति द्वारा की गई है और 12-02-2024 को आयोजित बैटक में निदेशक मंडल हारा अनुमोदित किया गया है। बोर्ड और उसकी ओर कते अब्रसेन स्पिनसं लिमिटेड

प्रबंध निदेशक

SEASONS TEXTILES LIMITED

Phone No. 0120-4690000, FAX: 0120-4351485

CIN - L74999DL1986PLC024058 Registered office: 26, Feroze Gandhi Road, Lower Ground Floor, Lajpat Nagar - III, New Delhi - 110024 Email: cs.stl@seasonsworld.com, Website: www.seasonsworld.com

EXTRACTS OF UNAUDITED STANDALONE FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND NINE MONTHS ENDED ON 31ST DECEMBER 2023

दिनाकः 12-02-2024

(Rs. In Lakh Except Per Share Data) Mine Mantha Funda d - Versandad

DADTICUL ADC		Q.	luarter ende	d	Nine Monti	Year ended	
	PARTICULARS	31-12-23	31-12-22	30-09-23	31-12-23	31-12-22	31.03.2023
		(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
1	Total income from operations (Net)	637.51	654.52	547.81	1877.42	1869.62	2390.24
2	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and exceptional items)	(1.35)	2.91	(23.37)	(39.87)	(50.46)	(45.66)
3	Net Profit/ (Loss) for the period (before tax and after exceptional items)	(1.35)	2.91	(23.37)	(39.87)	(50.46)	(45.66)
4	Net Profit/ (Loss) for the period (after tax and after exceptional items)	1.46	5.42	(20.56)	(17.46)	(41.42)	(48.49)
5	Total comprehensive Income for the period after comprising Profit' (Loss) for the period (After tax) and other comprehensive Income (after Tax)	1.46	5.42	(20.56)	(17.46)	(41.42)	(37.61)
6	Equity Share Capital	749.03	749.03	749.03	749.03	749.03	749.03
7	Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)			- Septiment	0	C-Milyalo w	1431.13
8	Earnings Per Share (Face Value of Rs.10/- each) (for continuing and discontinued operations)	2000000		2.00470.4		2000 - 200e	
	Basic:	0.02	0.07	(0.27)	(0.23)	(0.55)	(0.65)
	Diluted:	0.02	0.07	(0.27)	(0.23)	(0.55)	(0.65)

Note: The Financial Results have been prepared in accordance with the recognition and measurement principles of applicable Indian Accounting Standards (Ind AS) notified under the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 as amended as specified in section 133 of the Companies Act, 2013. The above financial results were reviewed and recommended by the Audit Committee and approved by the Board of Directors at their meeting held on 12th February 2024. The figures for the corresponding previous periods have been regrouped , wherever necessary, to make them comparable. The Company operates in a single reportable operating segment 'Home Furnishings Fabrics'.


> For and on behalf of the Board of Directors (Inderjeet Singh Wadhwa)

Chairman & Managing Director

Date: 12/02/2024

Parkhar Rastogi Company Secretary

Atlas Cycles (Haryana) Limited



Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs. 10/- each) basic & Diluted	0.23	0.32	0.36	0.85	1.05	3.27	
Notes:	V		F-8		D) (1)		
1. The above results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Board	d of Directors at the	heir meeting he	ld on 12.02.2024				
2. Key Standalone Financial Information:						(Rs. In Lacs)	
			STAND	ALONE			
		Quarter	Ended	Nine	e Months Ended	Year Ended	
Particulars	3 months ended 31.12.2023	3 months ended 30.09.2023	Corresponding 3 Months ending in the previous year 31.12.2022	Nine Months Ended 31.12.2023	Corresponding Nine Months ended in the previous year 31.12.2022	year ended 31.03.2023	
	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	UNAUDITED	AUDITED	
Total income from operations (net)	668.54	714.13	760.49	2,097.77	2,547.33	3,301.07	
Net Profit / (Loss) from ordinary activities after tax	38.69	53.13	61.24	143.01	186.30	229.22	
Net Profit / (Loss) for the period after tax (after Extraordinary items)	38.69	53.13	59.19	143.01	180.15	226.74	
Equity Share Capital	1,678.96	1,678.96	1,678.96	1,678.96	1,678.96	1,678.96	
Reserves (excluding Revaluation Reserve as shown in the Balance Sheet of previous year)	-	-					
Earnings Per Share (before extraordinary items) (of Rs. 10/- each) Basic & Diluted	0.23	0.32	0.35	0.85	1.07	1.35	
	1 10000	F 700000	1772		10000000	100000	

Earnings Per Share (after extraordinary items) (of Rs.10/- each) Basic & Diluted 0.23 Note: The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Nine Months Financial Results filed with the Stock Exchanges under Regulation 33 of the SEBI (Listing and Other Disclosure Requirements Regulations, 2015. The full format of the Quarterly and Nine Months Financial Results are available on the Stock Exchange websites. (www.bseindia.com) and company's website www.phoenixindia.com.

> For Phoenix International Limited Narender Kumar Makkar Director & Company Secretary

> > DIN: 00026857

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण प्लाट संख्या—01, सैक्टर—नॉलेज पार्क—4, ग्रेटर नौएडा सिटी, गौतम बुद्ध नगर (उ०प्र०) सार्वजनिक सूचना

ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण के अर्न्तगत M/s Rudra Buildwell Infra Pvt. Ltd. भृखण्ड संख्या—GH-05C, सेक्टर—16, ग्रेटर नोएडा को दिनांक 31.12.2015 को मानचित्र स्वीकृति प्रदान की गयी थी। तदोपरान्त विकासकर्ता द्वारा (Group Housing project) का पुनरीक्षित मानचित्र हेत् दिनांक 28.03.2023 के माध्यम से आवेदन किया गया है, जिसका आवेदन संख्या-87268 है। तत्कम में U.P. Apartment Act-2010, Amendment 2016 in Section-4 Sub Section-B के अन्तर्गत परियोजना के आवंटियों से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित किये जाने का प्रावधान है। इस संबंध में विकासकर्ता द्वारा प्रस्तृत स्वीकृति मानचित्र एवं Declarations as per UP Apartment Act-2010 परीक्षण किसी भी कार्यदिवस में सुबह 9:30 से साय 6:00 बजे के मध्य नियोजन विभाग में तथा प्राधिकरण की वैबसाईट पर किया जा सकता है ।

अतः उपरोक्त परियोजना के आंवटियों द्वारा Sanction Map एंव Declarations as per U.P. Apartment Act - 2010 के संम्बन्ध में सूचना प्रकाशित करने के 30 दिनों के अन्दर आपित्तियां / सुझाव आगंत्रित की जाती है। उपरोक्त के निहितार्थ अपनी आपत्तियां लिखित रूप में अपने आवंटन पत्र, नाम, पता एवं दरभाष नम्बर के साथ कार्यालय समय व कार्यदिवस में ग्रेटर नौएडा प्राधिकरण र्क मुख्य प्रशासनिक कार्यालय, भूखण्ड संख्या—1, नॉलेज पार्क—4, ग्रेटर नौएडा में रिथत महाप्रबन्धक (नियोजन / वास्तु0) को सम्बोधित करते हुए सूचना प्रकाशित होने के 30 दिवसों के अन्दर जमा करायी जा सकती है।

महाप्रबन्धक (नियो० / वास्त्०) ग्रेटर नौएडा औद्योगिक विकास प्राधिकरण


विनायक पोलीकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड

🍠 पंजीकृत कार्यालय : 312, नवजीवन कॉम्पलेक्स, 29, स्टेशन रोड, जयपुर-302006 (राज.) इंडिया। फोन : 0141-2377007 फैक्स : 0141-2378830, ई-मेल : investor@vinayakpolycon.com, वेबसाईट : www.vinayakpolycon.com CIN: L25209RJ2009PLC030620 (क. लाखों में गणि

31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही/ नौमाही के लिए स्टैण्डएलॉन गैर अंकेक्षित वित्तीय परिणामों के विवरणों का सार

क्रम सं.	विवरण	समाप्त तिमाही 31-12-2023	समाप्त नौमाही 31-12-2023	समाप्त तिमाही 31-12-2022
	1	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित	गैर अंकेक्षित
1. 2.	परिचालनों से कुल आय (शुद्ध) कर के पहले की अवधि के लिए असाधारण और	541.83	1597.10	598.86
3	असाधारण वस्तुओं से शुद्ध लाभ/(हानि) कर के पहले शुद्ध लाभ/(हानि) (असाधारण और/	5.73	17.26	11.86
4.	या असाधारण वस्तुओं से बाद) कर के बाद शुद्ध लाभ/(हानि)(असाधारण और/	5.73	17.26	11.86
5.	या असाधारण वस्तुओं से वाद)	6.62	15.73	4.89
1000	आय (कर के बाद) के लिए लाभ रहानि	6.62	15.73	4.89
6.	समता अंश पूंजी	308.13	308.13	308.13
7.	रिज़र्व (पूर्व लेखा वर्ष के तुलन पत्र के अनुसार पूनर्मूल्यांकन रिजर्व के अतिरिक्त)	-	141	94
8.	आय प्रति शेयर (रु. 10/- प्रति का) (संचालन जारी रखने और बंद करने के लिए)	5050-55W1	57780763	X2+0.00%
	1. मूल	0.21	0.51	0.16
	2. तरल	0.21	0.51	0.16

टिप्पणी : (1) इन स्टैण्डएलॉन विलीय परिणाम कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 133 के तहत निर्धारित Ind AS 34 अंतरिम किलीय रिपॉटिंग के रूप में इंडस्ट्रीज में निर्धारित मान्यता और माप सिद्धांन्तों के अनुसार तैयार किये गये है, इसके तहत जारी प्रासींगक नियमों के साध पढ़ें।(2) उपरांक्त विवरण संबी (सुचीयन दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएँ) विनियमन, 2015 के विनियमन 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंज के पास दाखिल की गई 31 दिसम्बर 2023 को समाप्त तिमाही / नीमाही के विलीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सार है। 31 दिसम्बर, 2023 को समाप्त तिमाही∕ नीमाही के वित्तीय परिणामों का संपूर्ण प्रारूप बाम्बे स्टॉक एक्सचेंज की वेबसाईट (www.bseindia.com) तथा कम्पनी की वेबसाईट (www.vinayakpolycon.com) पर उपलब्ध है । बोर्ड के लिए तथा उसकी ओर से विक्रम बैद (पूर्णकालिक निदेशक एवं मुख्य वित्तीय अधिकारी) दिनांक : 12 फरवरी, 2024



ईमेल : info@aravalisecurities.com, वेबसाइट : www.aravalisecurities.com 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के एकल अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का विवरण (रु. लाख में)

क्र.			सनाया ।तनाहा		समाया मा म	सनाया पप	
सं.	विवरण	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	30.09.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2023 (अलेखापरीक्षित)	31.12.2022 (अलेखापरीक्षित)	31.03.2023 (लेखापरीक्षित)
1	कुल आय	20.72	16.21	14.64	53.11	46.05	64.66
2	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ / (हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों से पूर्व)	(10.99)	(9.11)	(16.02)	(34.89)	(34.86)	(43.97)
3	कर पूर्व अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(10.99)	(9.11)	(16.02)	(34.89)	(34.86)	(43.97)
4	कर उपरांत अवधि हेतु निवल लाभ/(हानि) (आपवादिक एवं/अथवा असाधारण मदों के उपरांत)	(10.99)	(9.23)	(16.02)	(35.01)	(34.79)	(31.87)
5	अवधि हेतु कुल व्यापक आय (अवधि हेतु लाभ / हानि (कर उपरांत) तथा व्यापक आय (कर उपरांत) से समाविष्ट)	(10.87)	(9.11)	(15.91)	(34.65)	(34.53)	(34.21)
6	समता अंश पूंजी	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38	1515.38
7	आरक्षितियाँ (पूर्ववर्ती वर्ष के तुलन–पत्र में निदर्शितानुसार पुनर्मूल्याँकन आरक्षित छोड़कर)			0001100000			(1534.18)
8	आय प्रति अंश (रु. 10 / – प्रत्येक का)						
	मूलभूतः	Rs (0.07)	Rs (0.06)	Rs (0.11)	Rs (0.23)	Rs (0.23)	Rs (0.21)
	तरलीकृत :	Rs (0.07)	Rs (0.06)	Rs (0.11)	Rs (0.23)	Rs (0.23)	Rs (0.21)

1) उपरोक्त विवरण, सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकतायें) विनियमावली 2015 के विनियम 33 के अंतर्गत स्टॉक एक्सचेंजों के पास फाइलबद्ध 31 दिसंबर 2023

डीन सं. 02000004

को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों के विस्तृत प्रारूप का सारांश हैं। लेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों का पूर्ण प्रारूप, बीएसई लिमिटेड वेबसाइट (www.bseindia.com), जहां पर कंपनी की प्रतिभृतियां सुचीबद्ध हैं, पर और कंपनी की वेबसाइट (www.aravalisecurities.com) पर उपलब्ध है। उपरोक्त वित्तीय परिणामों को आईएनडी एएस 34 ("अंतरिम वित्तीय प्रतिवेदनीकरण") में निर्धारित मान्य एवं प्रमापित सिद्धांतों के संबंध में, कंपनी अधिनियम 2013 ("अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत निर्धारित भारतीय लेखांकन मानकों ('आईएनडी एएस') तथा सामान्य रूप में भारत में स्वीकृत अन्य मान्यताप्राप्त लेखांकन पद्धतियों के अनुसार अं सेबी (सुचीकरण दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकताएं) विनियमावली 2015 ("सुचीकरण विनियमावली") के विनियम 33 के अनुपालन में तैयार किया गया है।

दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं अर्द्धवर्ष के कंपनी के उपर्युक्त वर्णित अलेखापरीक्षित परिणाम की लेखापरीक्षण समिति द्वारा समीक्षा की गई है तथा निदेशव मंडल द्वारा 12 फरवरी 2024 को आयोजित अपनी बैठक में इन्हें अनुमोदित किया गया है।

कंपनी के सांविधिक लेखापरीक्षकों ने दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही एवं नौ माह के कंपनी के उपर्युक्त वर्णित अलेखापरीक्षित वित्तीय परिणामों की सीमित समीक्ष की है तथा इन पर असंशोधित राय व्यक्त की है।

आय कर अधिनियम 1961 के अंतर्गत कराधान का प्रावधान जो है वह पूरे वर्ष के लिए प्रत्याशित कारयोग्य आय के आधार पर बनाया गया है। वर्तमान में कंपनी का संचालन जो है वह केवल एक खंडवार अर्थात वित्तीय एवं अन्य परामर्शक सेवाएं प्रदान करने तक सीमित है तथा तदनुसार ही यहां आईएनडी एएन

108-परिचालनपरक खंडवारों के अनुसार कोई भी पृथक प्रतिवेदनयोग्य परिचालनपरक खंडवार नहीं है। 7) दिनांक 31 दिसंबर 2023 को समाप्त तिमाही के आंकड़े संतूलनकारी आंकड़े हैं, जो कि 31 दिसंबर 2023 को समाप्त नौ माह तथा प्रासंगिक वित्तीय वर्ष के 30 सितंबर 202

को समाप्त छह माह तक के प्रकाशित वर्षाद्यतन आंकड़ों के मध्य अंतर के रूप में प्रस्तुत हैं।

8) पूर्ववर्ती तिमाही / वर्ष के आंकड़ों को, उन्हें तुलनायोग्य बनाने के क्रम में, जहां कहीं भी अनिवार्य समझा गया है, वहां पुनर्समूहित / पुनर्व्यवस्थित किया गया है। बोर्ड के आदेशानुसा

कृते अरावली सिक्योरिटीज एण्ड फाइनेंस लिमिटे

दिनांक : 12 फरवरी, 2024 स्थान : गुड़गांव

रंजन कुमार पोददा अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशव

SUPRANEET FINANCE AND CONSULTANTS LIMITED Regd. Office: C-55/2, Wazirpur Industrial Area, Delhi-110 052

Ph: 011-42952500, Fax: 011-42952555 E-Mail: info@sfclindia.com, Website: www.sfclindia.com CIN: L65921DL1989PLC035261

EXTRACT FROM STANDALONE UNAUDITED FINANCIAL RESULT FOR THE QUARTER ENDED 31ST DECEMBER, 2023

DADTICIII ADC	Quarter	Dragodina	Corres	Voor to date	Vacr to date	Drovious
PARTICULARS	Quarter ended	Preceding 3 months	Corres- ponding	Year to date figures for		
	Glidea	ended	3 months	current	previous	Tear chaca
			ended in the		Period	
			Previous	ended	ended	
	31.12.2023	30.09.2023	Year 31.12.2022	31.12.2023	31.12.2022	31.03.2023
	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Unaudited)	(Audited)
Total income from operations (net)	7.48	I I				28.85
Net Profit /(Loss) for the period (before tax, Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.10	-0.20	0.51	0.23	1.66
Net Profit /(Loss) for the period before tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.10	-0.20	0.51	0.23	1.66
Net Profit /(Loss) for the period after tax (after Exceptional and or Extraordinary Items)	0.22	0.21	-0.15	0.42	0.17	1.16
Total Comprehensive Income for the period [Comprising Profit/(Loss) for the period (after tax) and other comprehensive income (after tax)]	0.22	0.21	-0.15	0.42	0.17	1.16
Equity Share Capital	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67	287.67
Reserves (excluding revaluation reserve as shown in the balance sheet of previous year)	-	-	-	-	-	81.47
Earnings per share (before extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.04
Earnings per share (after extraordinary items) (of ₹10/- each) Basic & Diluted :	0.01	0.01	-0.01	0.01	0.01	0.04

Place: Delhi

Date: 12.02.2024

1. The above results were reviewed and recommended by the audit committee and then approved by the board of directors at their meeting held on February 12, 2024.

2. 'The above financial results have been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), as prescribed under section 133 of the Companies Act 2013, regulation 33 of the SEBI (LODR) Regulation, 2015 and other

recognized accounting practices and the policies to the extent applicable.

3. The Company has not received any complaint from investors during the guarter ended on 31.12.2023

4. The Business activity of the Company falls with in a single primary business segment and there are no reportable segments. 5. That the Company was required to comply with order of Reserve Bank of India ("RBI") dated 31st May 2019 regarding cancellation of NBFC certificate and compliance of the requirements for reduction of loans and investment below the threshold by 31st May 2022. As at the year end, the Company holds more than 90 per cent of the net assets in the form of investment in equity shares and loan in group companies and accordingly the Company has proposed to apply for registration of the Company as Core Investment Company ("CIC") with RBI, however the process of the same and filing to RBI is still under process. Further, the management is of the view that the

6. Figures for the corresponding period have been regrouped/recasted/rearranged wherever necessary to make them comparable. 7. The unaudited results of the Company for the quarter ended December 31, 2023 are available on the Company's website (www.sfclindia.com) and on the website of MSEI (www.msei.in).

compliance with Division III of Schedule III to the Companies Act, 2013 would be carried out on receipt of Certificate of Registration from

Vineet Goel

For and on behalf of the Board

(Director) DIN: 06852762